



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 171 राँची, शुक्रवार,

1 मार्च, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

26 फरवरी, 2019

विषय : राज्य योजनान्तर्गत बासुकीनाथ नगर पंचायत की ₹ 57,77,81,900/- (सन्तावन करोड़ सत्तहतर लाख इक्कासी हजार नौ सौ रुपये मात्र) की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना एवं ₹ 42,15,09,000 (बयालीस करोड़ पन्द्रह लाख नौ हजार रुपये मात्र) की लागत पर मयुराक्षी नदी में दो वियर (Weir) निर्माण अर्थात् कुल ₹ 99,92,90,900 (निन्यानवे करोड़ बानवे लाख नब्बे हजार नौ सौ रुपये मात्र) की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या- 5/यो०/जलापूर्ति (बासुकीनाथ)/04/2018/न०वि०आ०-914-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इस क्रम में बासुकीनाथ नगर पंचायत के आमजनों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना कार्यान्वित किया गया है।

2. यह योजना, नगर पंचायत, बासुकीनाथ की वर्तमान जनसंख्या 17123 (वर्ष 2011) पर आधारित है एवं इस योजना का आधार वर्ष 2018 होगा, जो अगले 30 वर्ष अर्थात् 2048 की संभावित जनसंख्या

37982 की मांग को पूरा करेगी। इस योजना की कुल क्षमता 8.64 MLD intake water के अनुरूप डिजाईन की गई है।

3. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना कर जलस्रोत मयुराक्षी नदी होगा, जिसमें दो वियर (Weir) का निर्माण कर योजना का कार्यान्वयन किया जा सकेगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर लिया गया है।

4. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु परामर्शी MaRs Planning and Engineering Services Pvt. Ltd. Doranda, Ranchi द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) प्राक्कलित राशि ₹ 57,77,81,900/- (सन्तावन करोड़ सत्तहतर लाख इक्यासी हजार नौ सौ रुपये मात्र) पर मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निम्नांकित अवयव एवं लागत पर तकनीकी स्वीकृति निम्नवत प्रदत्त है :-

Cost Estimate		
Sl. No.	Item Description	New Rate
1	Estimate of Intake Well	5967957.00
2	Estimate of Gangway	2768018.00
3	Estimate of Coffor Dam for Intake Well including Gangway	520221.00
4	Estimate Infiltration Gallery	2366315.00
5	Estimate Water Treatment Plant	24010712.00
6	Estimate of E & M at Intake Well	9526611.00
7	Estimate of E & M at WTP.	5358591.00
8	Estimate of Raw Water Rising Main	104258681.00
9	Estimate of Clear Water Rising Main	51746322.00
10	Estimate of Elevated Service Reservoir.	15072245.00
11	Estimate of Distribution System	175892717.00
12	Estimate of Staff Quarter	1287066.00
13	Estimate of Boundary Wall	2669064.00
14	Estimate of N.H. (114 A) Crossing	4551268.00
15	Estimate of Railway Crossing	4429465.00
16	Estimate of House connection	19335141.00
17	For SCADA System	6000000.00
18	Total Cost of Water Supply Scheme	435760394.00
19	Add GST @12%	52291247.28
20	Total Cost of Water Supply Scheme including GST	488051641.28
21	Labour Cess @1%	4880516.41
	(A) Sub Total	492932157.69
22	JUIDCO Charges @ 7% on cost up to 10 Cr. & @5% on Extra cost above 10 Cr. Upto 100 Cr. (On W/S cost)	26402582.06
23	DPR Preparation Charges & Construction Supervision Charges @ (1.5%+1.5%=3.0%) (On W/S cost)	14641549.24
	(B) Sub Total	41044131.30
24	Operation and Maintenance for 2 Years.	38724921.00
25	Add 12% GST	4646990.52
26	Operation and Maintenance Charge including GST	43371911.52
27	Add labour Cess @1%	433719.1152
	(C) Sub Total	43805630.64
	(A+B+C)	577781919.63
	Say	57,77,81,900/-
(संतावन करोड़ सत्तहतर लाख इक्यासी हजार नौ सौ रुपये मात्र)		

5. उपर्युक्त राशि जुड़को को आवंटित किया जायेगा, जो इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी होगा।
6. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मयुराक्षी नदी में दो वियर (Weir) का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा Deposit Work के रूप में कराया जायेगा। इस हेतु राशि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बासुकीनाथ नगर पंचायत को आवंटित की जायेगी। वियर निर्माण हेतु स्वीकृत राशि बासुकीनाथ नगर पंचायत स्तर से जल संसाधन विभाग से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता को हस्तांतरित की जायेगी।
7. प्रस्तावित दो वियर (Weir) निर्माण के लिये परामर्शी MaRs Planning and Engineering Services Pvt. Ltd. Doranda, Ranchi द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, (DPR) पर मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड द्वारा निम्नवत् तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त है :-

Sl. No.	Item Description	New Rate
1	SUMMARY OF COST (CAPITAL COST) of WEIR - 1 & WEIR - 2	367744779.00
2	Add 12% GST	44129373.48
3	SUB TOTAL CAPITAL COST	411874152.48
4	LABOUR CESS @1%	4118741.52
5	DPR PREPERATION @ 1.5% ON COST OF WEIR (i.e. SL. NO. 1)	5516171.69
6	TOTAL COST OF WEIR	421509000
	SAY RS.	42,15,09,000

8. इस योजना का वित्त पोषण वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं उत्तरोत्तर वर्षों में सुसंगत बजट शीर्ष से किया जाएगा।
9. योजना का कार्यान्वयन खुली एवं प्रतिस्पर्धी निविदा द्वारा सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक माह योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन जुड़को लि० तथा बासुकीनाथ नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना का कार्यान्वयन तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख को विभाग को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
11. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक-20.02.2019 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
12. बासुकीनाथ शहरी जलापूर्ति योजना को राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 21.02.2019 की बैठक में मद संख्या-23 अर्न्तगत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
